

उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-4
संख्या-658 /XXIV(4)/2018-03(01)/2016
देहरादून: दिनांक 19 अप्रैल, 2018

कार्यालय ज्ञाप

शासन के कार्यालय आदेश संख्या-618/XXIV(4)/2018-03(01)/2016, दिनांक 13 अप्रैल, 2018 द्वारा डॉ0 आर0के0गुप्ता, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, बनबसा का स्थानान्तरण राजकीय महाविद्यालय, हल्द्वीचौड़ एवं कार्यालय आदेश संख्या-620/XXIV(4)/2018-03(01)/2016, दिनांक 13 अप्रैल, 2018 द्वारा डॉ0 गोविन्द सिंह रावत, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, नागनाथ पोखरी का स्थानान्तरण राजकीय महाविद्यालय, खटीमा किया गया है।

2- उपरोक्त दोनों कार्मिकों (डॉ0 आर0के0गुप्ता एवं डॉ0 गोविन्द सिंह रावत) का स्थानान्तरण जनहित में किया गया है। जबकि कार्यालय आदेशों में प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण त्रुटिवश अंकित हुआ है। अतः उक्त दोनों कार्यालय आदेशों में प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण के स्थान पर जनहित में स्थानान्तरण पढ़ा जाय।

(डॉ0 रणवीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव

संख्या-658 (1)/XXIV(4)/2018-03(01)/2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सम्बन्धित मण्डलायुक्त द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
5. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी, नैनीताल।
6. सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. लेखाधिकारी, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी, नैनीताल द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
9. सम्बन्धित कार्मिक/प्राचार्य द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(एम0एम0 सेमवाल)
संयुक्त सचिव